



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 20, 1979/वीस 30, 1900
No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 20, 1979/PAUSA 30, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

अधीनस्थता

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1979

का. आ. 46 (अ).—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रकृत शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 21 जनवरी, 1979 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उप-धारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81

के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध उत्तर प्रदेश राज्य के निम्न-लिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

“जिला आजमगढ़ में”

माऊ परगना के तहसील—मोहम्मदाबाद की

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. निजामुद्दीन पुर | 6. सराय लाखण्डी |
| 2. सहादतपुर | 7. जहांगीराबाद |
| 3. इमिलिया | 8. दामनपुर |
| 4. सारहु | 9. परदाह |
| 5. खालसा उत्तर-दक्षिण तोला | |

नगरपालिका की सीमा के अन्तर्गत क्षेत्र।”

[सं. एस-38013/11/78-एच. आई.]

हंस राज छाबड़ा, उप-सचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 1979

S.O. 46(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 21st January, 1979 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Uttar Pradesh, namely :—

“The areas comprised within the Municipal limits of,

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1. Nizamuddin Pur | 6. Sarai Lakhandi |
| 2. Sahadatpur | 7. Jahangirabad |
| 3. Imilia | 8. Domanpur |
| 4. Sarhu | 9. Pardaha |
| 5. Khalsa Uttar Dakshin Tola | |

in Pargana—Mau, Tehsil—Mohamdabad District Azamgarh.”

[No. S-38013/11/78-HI]

HANS RAJ CHHABRA, Dy. Secy.